

थाना कादरचौक पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर पत्नी ने करायी दीनदयाल की हत्या ।

दिनांक 08.01.2020 को थाना कादरचौक क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूडा भद्रौल में दीनदयाल पुत्र होरीलाल नि० ग्राम भूडा भद्रौल थाना कादरचौक जनपद बदायूं को अज्ञात अभियुक्त द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 09.01.2021 को थाना कादरचौक पर मु०अ०स०-10/21 धारा 302 भादावि में पंजीकृत किया गया । उक्त घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा बदायूं के आदेशानुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री प्रवीण सिंह चौहान व क्षेत्राधिकारी उझानी श्री संजय कुमार रेड्डी जनपद बदायूं के कुशल निर्देशन में जनपद की स्वाट / सर्विलॉस टीम तथा थानाध्यक्ष कादरचौक प्रयागराज सिंह द्वारा उक्त विवेचना के क्रम में तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक दीनदयाल पुत्र होरी लाल नि० ग्राम भूडा भद्रौल थाना कादरचौक बदायूं की हत्या मृतक की पत्नी से अवैध सम्बन्धों को लेकर अभियुक्त बबलू यादव पुत्र किताव सिंह नि० ग्राम सावन्ती नगला थाना उझानी बदायूं हाल पता वार्ड न०-6 कछला थाना उझानी बदायूं व मृतक की पत्नी पूजा उर्फ मधु उर्फ कमलेश कुमारी द्वारा सामान्य आशय के लिए गोली मारकर हत्या की थी जिसमें दोनो अभियुक्त प्रकाश में आये हैं । तथा अभियुक्त बबलू यादव उपरोक्त से मु०अ०स०-10/21 धारा 302 भादावि से सम्बन्धित आला कत्ल बरामद किया गया है । जिसके सम्बन्ध में स्थानीय थाना पर मु०अ०स०-13/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, पेश करने के उपरान्त जिला कारागार भेजा जा रहा है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधिकारीगण जनपद बदायूं द्वारा उक्त अभियोग का सफल अनावरण करने पर थानाध्यक्ष कादरचौक प्रयागराज सिंह एवं संयुक्त स्वाट / सर्विलॉस पुलिस टीम की प्रशंसा की एवं जनता के लोगो द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है ।

बरामदगी- एक अदद तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण

1- बबलू यादव पुत्र किताव सिंह नि० ग्राम सावन्ती नगला थाना उझानी बदायूं हाल पता वार्ड न०-6 कछला थाना उझानी बदायूं ।

2- पूजा उर्फ मधु उर्फ कमलेश कुमारी पत्नी मृतक दीनदयाल नि० ग्राम भूडा भद्रौल थाना कादरचौक बदायूं ।

अनावरण करने वाली पुलिस टीम ।

- 1- श्री राम गोपाल शर्मा प्रभारी निरी0 स्वाट/सर्विलांस मय टीम
- 2- श्री प्रयागराज सिंह (थानाध्यक्ष)
- 3- उ0नि0श्री जब्बार अली
- 4- हेड का0 79 साधू सिंह
- 5- का01785 शिवम पुण्डीर
- 6- का01929 गोपाल त्यागी

सोशल मीडिया सैल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद बदायूँ ।